

## राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र, म. प्र. राज्य इकाई में हिन्दी पखवाड़े का आयोजन

विगत वर्षों के अनुसार इस वर्ष भी मध्य प्रदेश राज्य में स्थित राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र व जिला केन्द्रों में दिनांक 14 से 28 सितंबर 2021 तक हिन्दी पखवाड़े का आयोजन किया गया। हिन्दी पखवाड़े के सफल आयोजन हेतु निम्नानुसार समिति का गठन किया था -

1. श्री अरविन्द सोले, वैज्ञानिक 'एफ'
2. श्री संतोष शुक्ला, वैज्ञानिक 'एफ'
3. श्री अजय त्रिपाठी, वैज्ञानिक 'ई'

राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी श्री अमर कुमार सिन्हा के मार्गदर्शन में हिन्दी पखवाड़े के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गईं तथा प्रत्येक प्रतियोगिता के समन्वयन हेतु अतिरिक्त राज्य सूचना-विज्ञान अधिकारियों को दायित्व सौंपा गया।

पखवाड़े के दौरान निम्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं -

क्रमांक	दिनांक एवं समय	प्रतियोगिता का नाम	समन्वयक अधिकारी
1.	22/09/2021 दोपहर 3.30 से 4.30	चित्र आधारित भाव संप्रेषण (कहानी/निबंध/कविता/ जो कुछ भी आप लिखना चाहें )	श्री विवेक चितले, अतिरिक्त राज्य सूचना-विज्ञान अधिकारी
2.	23/09/2021 दोपहर 3.30 से 4.30	हिन्दी निबंध (तात्कालिक)	श्री संजय हर्डीकर, अतिरिक्त राज्य सूचना-विज्ञान अधिकारी
3.	24 /09/2021 दोपहर 2.30 से 3.30	हिन्दी अनुवाद	श्री अब्राहम इट्टी, अतिरिक्त राज्य सूचना-विज्ञान अधिकारी
4.	27/09/2021 दोपहर 2.30 से 4.30	हिन्दी भाषण (तात्कालिक)	श्री कमलेश जोशी, अतिरिक्त राज्य सूचना-विज्ञान अधिकारी

प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए आयोजन समिति एवं समन्वयक अधिकारियों द्वारा सभी को अधिक से अधिक संख्या में भाग लेने के लिए प्रेरित किया गया।

उपरोक्त प्रतियोगिताओं में म. प्र. राज्य केंद्र के अधिकारियों/कर्मचारियों के अलावा समस्त जिला केंद्रों व सभी उपकेन्द्रों के अधिकारियों / कर्मचारियों ने पूरे उत्साह के साथ बड़ी संख्या में भाग लिया। जिला केंद्र व सभी उपकेन्द्रों के अधिकारियों / कर्मचारियों ने प्रतियोगिताओं में विडिओ कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लिया।

दिनांक 28/09/2021 को दोपहर 2 से 4 बजे तक समापन समारोह का आयोजन किया गया समापन समारोह में जिला केंद्र व सभी उपकेन्द्रों के अधिकारी / कर्मचारी विडिओ कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए। समापन समारोह के प्रारंभ में राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी महोदय द्वारा कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री डी. के. त्यागी, उप निदेशक (राजभाषा), आयकर विभाग, भोपाल का स्वागत किया गया। इस आयोजन में राज्य एवं जिला इकाई के सहकर्मियों द्वारा खुले तौर पर हिंदी से जुड़े विषयों पर विचार रखे गए। लोगों ने कविताओं और गीतों के माध्यम से

अद्भुत समा बांधा । कई लोगों ने स्वरचित कविताएं भी सुनाई और अपनी सृजन क्षमता का परिचय दिया । मुख्य अतिथि महोदय व राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी महोदय द्वारा पखवाड़े के दौरान आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कृत किया गया और उन्हें प्रमाण पत्र प्रदान किए गए । तदुपरांत विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष श्री संजय हर्डीकर, राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी श्री अमर कुमार सिन्हा व मुख्य अतिथि श्री डी. के. त्यागी जी द्वारा अपने सम्बोधन में सम्पूर्ण कार्यालयीन कार्य को हिन्दी में करने तथा हिन्दी के लिए प्रेरक माहौल बनाने में अपना योगदान देने हेतु आग्रह किया गया । इस भव्य आयोजन का संचालन श्री संतोष शुक्ला, वैज्ञानिक 'एफ' द्वारा किया गया ।

आभार प्रदर्शन के उपरांत कार्यक्रम समाप्त हुआ।

## हिन्दी पखवाड़ा - 2021 प्रतियोगिता परिणाम

क्रमांक	चित्र आधारित भाव संप्रेषण	हिन्दी निबंध (तात्कालिक)	हिन्दी अनुवाद	हिन्दी भाषण (तात्कालिक)	पुरुस्कार	पुरुस्कार राशि
1	श्री नितिन गुप्ता	श्री प्रदीप अहिरवार	श्रीमती सरस्वती परमार	श्रीमती आरजू परिहार	प्रथम	1500
2	सुश्री विभा कुरेले	श्री सौरभ कुमार साहू	श्री समीर राजन	श्री जितेंद्र कुमार पराशर	द्वितीय	1200
3	श्री जितेंद्र कुमार पराशर	श्री रजत रस्तोगी	श्री प्रमोद कुमार जैन	श्रीमती सरस्वती परमार	तृतीय	900
4	श्री राजेंद्र उपाध्याय	श्री जितेंद्र कुमार पराशर	श्री चेतन धकाते	श्री धर्मेन्द्र यादव	प्रोत्साहन	600
5	श्री नीलेश कुमार मंडलोई	श्री प्रफुल श्रीवास्तव	श्री राजेंद्र उपाध्याय	श्री कपिल पाटीदार	प्रोत्साहन	600
6	श्री सौरभ कुमार साहू	श्रीमती मधु मिश्रा	श्री प्रदीप अहिरवार	श्री आशीष शुक्ला	प्रोत्साहन	600
7	सुश्री सुनीता जैन	श्रीमती सरस्वती परमार	श्रीमती मधु मिश्रा	श्री राकेश जैन	प्रोत्साहन	600

## हिन्दी पखवाड़े की गतिविधियों की चित्रमय झांकी -



प्रतियोगिता के दौरान प्रतिभागी



सूचना विज्ञान अधिकारी व मुख्य अतिथि का सम्बोधन





समापन समारोह व पुरस्कार वितरण



राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी के साथ प्रतिभागी व विजेता